

इसे वेबसाईट [www.govtppressmp.nic.in](http://www.govtppressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 फरवरी 2015—माघ 13, शक 1936

### विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2015

फा.क्र. 56-चार-2015-41.—भारत निर्वाचन आयोग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 56/2015/PPS-II, दिनांक 23 जनवरी 2015 राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाती है।

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001  
नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी, 2015—3 माघ, 1936 (शक)

### शुद्धि-पत्र

संख्या 56/2015/रा.दल अनु.-II.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (iii), तारीख 13-1-2015 में प्रकाशित, हिन्दी अधिसूचना संख्या 56/2015 रा.दल अनु.-II, दिनांक 13-01-2015 में—

1. हिन्दी अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 4 में अंकित सारणी के स्तम्भ 4 के अन्तर्गत क्रम सं. 4 में “बिहार राज्य” की “राष्ट्रीय लोक समता पार्टी” के समुख विद्वान प्रविष्टि को “छत का पंखा” पढ़ा जाए।

2. हिन्दी अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 69 में अंकित सारणी के स्तम्भ 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 1287 पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः “राष्ट्रीय जागृति पार्टी” और “ऋषभ इंस्टीचूट, चैरैयाटाड़ पुल, चौधरी पेट्रॉल पम्प, कंकड़बाग, पटना, बिहार-800020” पढ़ा जाए.

आदेश से,  
हस्ता./-

(वरिन्दर कुमार)  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 23rd January, 2015—3 Magha, 1936 (Saka)

#### CORRIGENDUM

No.56-2015-PPS-II.—In the Hindi Version of the Commission's Notification No. 56/2015/PPS-II, dated 13-01-2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (iii), dated 13-01-2015 :—

1. At page 4 of the Hindi version of the Notification in column 4 against Sl. No. 4 in respect of "Rashtriya Lok Samata Party" the existing entry may be read as "Chhat ka Pankha".
2. At page 69 against Sl. No. 1287 of the Hindi version of the Notification, the existing entries under column 2 and 3 shall be read as "Rashtriya Jagriti Party" and "Rishabh Institute, Chiraitaad Pul, Chaudhary Petrol Pump, Kankarbagh, Patna, Bihar-800020", respectively.

By order,  
Sd./-  
(VARINDER KUMAR)  
Secretary,  
Election Commission of India.